

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 11—जुलाई 17, 2015 (आषाढ़ 20, 1937)

No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 11—JULY 17, 2015 (ASADHA 20, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित
अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Government Officers issued by
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 जुलाई 2015

रक्षा (एम एस)

सं. 164, दिनांक 12 जून 2015—भारत के माननीय राष्ट्रपति अपने अवैतनिक वैयक्तिक स्टाफ में 01 अप्रैल 2015 से निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

अवैतनिक नौसेना ए.डी.सी.

वाइस एडमिरल एस पी एस चीमा, पीवीएसएम, एवीएसएम, एनएम (01704 वाई)

रेवती रमन
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 165, दिनांक 15 जून 2015—राष्ट्रपति महोदय यथासंशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन 05 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

नियमित सेना

अल्पकालीन आयोग

कप्तान के पद पर (परख पर)

एम् एस 17067 पी कप्तान दिबेन्दु घोष, आयोग की तिथि 16.03.2013

को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 16.09.2012 से दी जाएगी। (इसमें जूनियर रेसिडेंट के पद पर अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है) वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

एम् एस 17166 एक्स कप्तान संदीप ढाका, आयोग की तिथि 06.08.2013

को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 06.02.2013 से दी जाएगी। (इसमें जूनियर रेसिडेंट के पद पर अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है) वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान राखी मोहन, एम् एस 16954—पी, आयोग की तिथि 01.12.2012

को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 01.12.2009 से दी जाएगी। (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता (डी.एन.बी) स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के लिए 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है) वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान भाग्यलक्ष्मी एस, एम् एस 17200—एम, आयोग की तिथि 06.08.2013

को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 06.02.2013 से दी जाएगी। (इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है) वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान मनवीर सिंह, एम् एस 17138—एल, आयोग की तिथि 06.08.2013

को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 06.02.2013 से दी जाएगी। (इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है) वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान वरुन कुमार, एम् एस 17065—के, आयोग की तिथि 12.02.2013

को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 12.08.2012 से दी जाएगी। (इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है) वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान वैदेही सी राजवाडकर, एम् एस 17225—वाई, आयोग की तिथि 19.10.2013

को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 19.10.2010 से दी जाएगी। [इसमें स्नातकोत्तर योग्यता वैधक अधिस्नातक में (सूक्ष्मजीवशास्त्र) के लिए 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है] वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

एम् एस-16961 एल कप्तान नितिन पाहुजा, आयोग की तिथि 21.09.2012

को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 21.09.2009 से दी जाएगी, इसमें स्नातकोत्तर योग्यता (अनेस्थेसिया में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन) के लिए 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है) वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

एम् एस- 17140 एच, कप्तान सुषमा मनराल, आयोग की तिथि 06.08.2013

को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 06.02.2010 से दी जाएगी। (इसमें आयुर्विज्ञान-वाचस्पति (जीव रसायन) के लिए 36 महीने एवं अस्पताल नियुक्ति (सीनियर रेसिडेंट) के लिये 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है) वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान श्रीनिवास गुप्ता, एम् एस 17157-डब्ल्यू, आयोग की तिथि 06.08.2013

को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 06.08.2010 से दी जाएगी। (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता एम. डी. (साईकाट्री) के लिए 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है) वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान मोहन अंगाडी	एम एस--16952 के	ए एम सी	11.09.2012
कप्तान संहिता बारुई	एम एस-17240 एन	ए एम सी	21.09.2013
कप्तान परीक्षित सान्याल	एम एस--17241 डब्ल्यू	ए एम सी	21.09.2013
कप्तान दीपशिखा पाण्डेय	एम एस-17257एफ	ए एम सी	19.10.2013
कप्तान प्रतीक अग्रवाल	एम एस-17261के	ए एम सी	19.10.2013
कप्तान मणीन्द्र सिंह परिहार	एम एस-17262एम	ए एम सी	19.10.2013
कप्तान शीतल कुमार	एम एस-17282ए	ए एम सी	11.02.2014
कप्तान नवीन के आर	एम एस-17283एच	ए एम सी	11.02.2014
कप्तान रिपू सुदन तिवारी	एम एस-17203 ए	ए एम सी	06.08.2013
कप्तान श्याम सिंह गुर्जर	एम एस-17246पी	ए एम सी	19.10.2013
कप्तान मनदीप कौर किन्गरा	एम एस-17285एन	ए एम सी	11.02.2014
कप्तान ललित खवसे	एम एस-17287वाई	ए एम सी	13.03.2014
कप्तान दीपक एच	एम एस-17293एम	ए एम सी	16.04.2014
कप्तान अमित कुमार मोहान्ती	एम एस-17354वाई	ए एम सी	16.04.2014
कप्तान अभिनव कुमार वर्मा	एम एस-17361पी	ए एम सी	17.12.2013
कप्तान पुरविन्दर ठाकुर	एम एस-17363ए	ए एम सी	11.02.2014

कप्तान आमोस तामंग	एम एस-17263 पी	ए एम सी	19.10..2013
कप्तान आशीष कुमार गोयल	एम एस-16953एम	ए एम सी	21.09.2012
कप्तान दिप्ती पाटील	एम एस-17215 पी	ए एम सी	19.10.2013
कप्तान सुपिति गुप्ता	एम एस-16642वाई	ए एम सी	15.06.2010
कप्तान खर्चे चेतन रामचंद्र	एम एस-17279ए	ए एम सी	11.02.2014
कप्तान राज कुमार यादव	एम एस- 17366एन	ए एम सी	17.12.2013
कप्तान शिरीन दीप्ती एस	एम एस-17227के	ए एम सी	19.10.2013
कप्तान प्रभाकरन के	एम एस-17265ए	ए एम सी	17.12.2013
कप्तान हारिस जाफरी	एम एस-17268एन	ए एम सी	17.12.2013
कप्तान रोहित रवीन्द्रन	एम एस-17271एन	ए एम सी	17.12.2013
कप्तान अभिमन्यु मदिनेनी	एम एस-17272डब्ल्यू	ए एम सी	17.12.2013
कप्तान मनु तिवारी	एम एस-17274एफ	ए एम सी	11.02.2014
कप्तान सिद्धार्थ गोयल	एम एस-17290वाई	ए एम सी	13.03.2014
कप्तान सिव प्रसाद रेन्टाला	एम एस-17291एफ	ए एम सी	16.04.2014
कप्तान शरत चन्द्रन सी आर	एम एस-17292के	ए एम सी	16.04.2014
कप्तान अंकुश मल्होत्रा	एम एस-17352एन	ए एम सी	11.02.2014
कप्तान नागराजू गुनडेति	एम एस-17249एच	ए एम सी	19.10.2013
कप्तान रणजय दत्ता	एम एस-17252एच	ए एम सी	19.10.2013
कप्तान सीमा चपराना	एम एस-17254एन	ए एम सी	19.10.2013
कप्तान द्वारिका तिवारी	एम एस-17255डब्ल्यू	ए एम सी	19.10.2013
कप्तान आशीष रापडिया	एम एस-17212एफ	ए एम सी	19.10.2013
कप्तान अखिल दास	एम एस-17250एक्स	ए एम सी	19.10.2013
कप्तान दीपक राज भट्ट	एम एस-17253एल	ए एम सी	19.10.2013
कप्तान उलशयिल सिजो सेबास्टियन	एम एस-17269डब्ल्यू	ए एम सी	17.12.2013
कप्तान बिजेन्द्र सिंह	एम एस-17275के	ए एम सी	11.02.2014
कप्तान सरणप्पा	एम एस-17278एक्स	ए एम सी	11.02.2014
कप्तान श्रीनिवासा कुमार महंता एम एन	एम एस-17348एल	ए एम सी	17.12.2013

पला. लेफ्टिनेंट के पद पर (परख पर)

पला. लेफ्टिनेंट अमरदीप कौर रंधावा एम् एस 16984—एम (ए एफ 32378—ए), आयोग की तिथि 21.09.2012

को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 21.09.2009 से दी जाएगी। [इसमें अस्पताल नियुक्ति स्नातकोत्तर योग्यता एम डी (शिशुरोग चिकित्सा शास्त्र) के लिए 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है] वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी। डी जी ए एफ एम एस पत्र सं० 349921 डी जी ए एफ एम एस/डी जी—1 बी (ii) दिनांक 23 दिसम्बर 2013 के संदर्भ में।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

पला. लेफ्टिनेंट यादव सागर श्यामलाल एम् एस 16884—एफ (ए एफ—32062एल), आयोग की तिथि 17-01-2012

को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 17.07.2011 से दी जाएगी। (इसमें सिविल अस्पताल, अमरावती में चिकित्सा अधिकारी क्लास II के पद पर अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है) वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी। डी जी ए एफ एम एस डी जी—1 बी (ii) पत्र सं० 348921 डी जी ए एफ एम एस/डी जी—1 बी (ii) दिनांक 13 नवम्बर 2013 के संदर्भ में।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

पला. लेफ्टिनेंट अनंत ओबेरॉय एम् एस 16881—एन (ए एफ 32063 आर), आयोग की तिथि 17.01.2012

को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 17.07.2011 से दी जाएगी। (इसमें गुरु तेगबहादुर अस्पताल, दिल्ली सरकार में जूनियर रेसिडेंट के पद पर अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने ज्येष्ठता पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है) वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

पला. लेफ्टिनेंट विकास शर्मा एम् एस 17119 ए (ए एफ 32383 एच), आयोग की तिथि 21.09.2012

को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 21.09.2010 से दी जाएगी। (इसमें नेत्रविज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिये 24 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है) वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी। डी जी ए एफ एम एस/डी जी—1बी (ii) पत्र सं० 35127/डी जी एफ एम एस/डी जी—1बी (ii) दिनांक 27 मई 2014 के संदर्भ में है।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

एम् एस 17142 एन पला. लेफ्टिनेंट चेरुशेरिकारन बेटसी अन्थोनी (ए एफ 33139 एस), आयोग की तिथि 06.08.2013

को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 06.08.2010 से दी जाएगी। इसमें डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (जन औषध वैधक शास्त्र) के लिये 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है) वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

पला. लेफ्टिनेंट सुश्री संगीता खटुआ एम् एस 17239 वाई (ए एफ 33147—आर), आयोग की तिथि 17.09.2013

को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 17.09.2010 से दी जाएगी। (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (एविएशन मेडिसिन) के लिए 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है) वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

फ्लाईट लेफ्टिनेंट स्नेहा दिनकर एम् एस 17238 डब्ल्यू (33146—एल), आयोग की तिथि 17.09.2013

को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 17.09.2010 से दी जाएगी। (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता [डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (एविएशन मेडिसिन)], के लिए 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है) वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

फ्ला. लेफ्टिनेंट सौरभ गाइन एम् एस 17117—पी (ए एफ 33144 एफ), आयोग की तिथि 13.08.2013

को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 13.02.2013 से दी जाएगी। (इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है) वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

फ्ला. लेफ्टिनेंट नमिता चौधरी एम् एस 17158 वाई (ए एफ 33140—के), आयोग की तिथि 06.08.2013

को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 06.08.2010 से दी जाएगी। (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता मास्टर ऑफ सर्जरी (ऑफथलमोलॉजी) के लिए 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है) वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

फ्ला. लेफ्टिनेंट एबिन स्टान्ली एम् एस 16832—एल (एएफ—32051—बी), आयोग की तिथि 27—09—2011

को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 27.03.2011 से दी जाएगी। (इसमें सरकारी तालुक अस्पताल, पीमेंड, इडुक्की जिला, केरल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है) वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

फ्ला. लेफ्टिनेंट एस बालाजी एम् एस 16796 एल (ए एफ 31409एफ), आयोग की तिथि 26.08.2010

को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 26.08.2008 से दी जाएगी। (इसमें महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ द्वारा प्रदान किया गया अनास्थेसिओलोजी में स्नातकोत्तर योग्यता के लिए 24 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है) वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

फ्ला. लेफ्टिनेंट तिवारी विभा बट्टी विशाल एम् एस 17165—के (ए एफ 33138—एन), आयोग की तिथि 06.08.2013

को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 06.02.2010 से दी जाएगी। इसमें 36 महीने स्नातकोत्तर योग्यता एम डी (जन औषध वैद्यक शास्त्र) के लिए एवं 06 महीने हस्पताल नियुक्ति के लिए पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है) वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

फ्ला. लेफ्टिनेंट राहुल कुमार एम् एस 17242—वाई (ए एफ 33150—आर), आयोग की तिथि 11.10.2013

को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 11.10.2011 से दी जाएगी। (इसमें 24 महीने स्नातकोत्तर योग्यता डरमेतोलोजी, वेनेरियोलोजी और लिप्रोजी में डिप्लोमा के लिए पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है) वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

फ्ला. लेफ्टिनेंट जावेद इकबाल एम् एस 17068—एक्स (ए एफ —32388 जी), आयोग की तिथि 16.03.2013

को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 16.09.2012 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है) वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

फ्ला. लेफ्टिनेंट कुलकर्णी अनिकेत अशोक एम् एस 16949—के (ए एफ 32375—के), आयोग की तिथि 04.09.2012

को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 04.03.2009 से दी जाएगी। (इसमें 36 महीने स्नातकोत्तर योग्यता एम डी (जन औषध वैद्यक शास्त्र) के लिए एवं 06 महीने हस्पताल नियुक्ति के लिए पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है) वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

फ्ला. लेफ्टिनेंट विजय एस एम् एस 16950वाई (ए एफ— 32374—जी), आयोग की तिथि 04.09.2012

को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 04.09.2009 से दी जाएगी। [इसमें स्नातकोत्तर योग्यता डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (जन औषध वैद्यक शास्त्र) के लिए 36महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है] वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

फ्ला. लेफ्टिनेंट बिपलब भट्टाराई एम् एस 15854—एक्स (ए एफ —30040 आर), आयोग की तिथि 12.08.2008

को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 12.02.2008 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है) वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

फ्ला. लेफ्टिनेंट के. एम. मेहदी हाफिज़ लस्कर एम् एस 16821—वाई (एफ —32054एन), आयोग की तिथि 27—09—2011

को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 27.03.2011 से दी जाएगी। (इसमें बनगाँव राज्य डिस्पेंसरी में चिकित्सा अधिकारी के पद पर अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है) वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिव्या एन	<u>एम् एस-17209 एफ</u> ए एफ -33145 एच	ए एम सी	17.09.2013
फ्लाइट लेफ्टिनेंट ब्रिजेश कुमार सिंह	<u>एम् एस-17340 वाई</u> (33465ए)	ए एम सी	19.10.2013
फ्लाइट लेफ्टिनेंट संपत कुमार बत्तुला	<u>एम् एस-17343 एम</u> (33463 एन)	ए एम सी	19.10.2013
फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुरशरन सिंह गिल्ल	<u>एम् एस -17277 पी</u> (33674एस)	ए एम सी	11.02.2014
फ्लाइट लेफ्टिनेंट देवर्षि गुहा	<u>एम् एस-17341एफ</u> (33467 एच)	ए एम सी	19.10.2013
फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूजवेन्द्र सिंह ठाकुर	<u>एम् एस -17345एक्स</u> (33471 एल)	ए एम सी	19.10.2013
फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनुराधा	<u>एम् एस-17280पी</u> (33675 ए)	ए एम सी	11.02.2014
फ्लाइट लेफ्टिनेंट अंकिता सर्मा	<u>एम् एस-17041 ए</u> ए एफ -32387बी	ए एम सी	29.12.2012
फ्लाइट लेफ्टिनेंट नागपूरकर आशीष श्रीराम	<u>एम् एस 17070 पी</u> ए एफ 32389 के	ए एम सी	16.03.2013
फ्लाइट लेफ्टिनेंट मयंक नेगी	<u>एम् एस 17148 पी</u> ए एफ 33134 टी	ए एम सी	06.08.2013
फ्लाइट लेफ्टिनेंट चंदन तिवारी	<u>एम् एस 17167 ए</u> ए एफ 33133 आर	ए एम सी	06.08.2013

फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट विवेक सिंह	<u>एम एस-17251 ए</u> (33129 एल)	ए एम सी	18.04.2013
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट शीला पी	<u>एम एस-17362 एक्स</u> (33673 एन)	ए एम सी	11.02.2014
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट मकवाना दिपक मनसुखभाई	<u>एमएस -17367 डब्ल्यू</u> (33668 जी)	ए एम सी	17.12.2013
फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट किरण सन्नल्ली	<u>एम एस-17256वाई</u> (33468 एल)	ए एम सी	19.10.2013

राष्ट्रपति महोदय यथा संशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन 7 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :-

नियमित सेना

अल्पकालीन कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा)

फ्लाइटिंग ओफिसर के पद पर (परख पर)

फ्लाइटिंग ओफिसर अंकित बत्रा	<u>एम एस-17071 एक्स</u> ए एफ -32739 एल	ए एम सी	18.03.2013
फ्लाइटिंग ओफिसर नेहा चौहान	<u>एम एस-17075 एन</u> ए एफ -32738 एच	ए एम सी	18.03.2013
फ्लाइटिंग ओफिसर सी पी शनतनु	<u>एम एस-17098 पी</u> ए एफ -32740 एफ	ए एम सी	18.03.2013
फ्लाइटिंग ओफिसर उमेश कुमार मिश्रा	<u>एम एस-17120 पि</u> ए एफ -33148 टी	ए एम सी	20.09.2013
फ्लाइटिंग ओफिसर अल्थामस	<u>एम एस-17129 के</u> ए एफ -33149 ए	ए एम सी	20.09.2013

लेफ्टिनेन्ट के पद पर (परख पर)

लेफ्टी माथ्युस एन माथ्युस	एम एस-17127वाई	ए एम सी	20.09.2013
लेफ्टी प्रशान्त शुक्ला	एम एस-17128एफ	ए एम सी	20.09.2013
लेफ्टी अशविन वल्सन	एम एस-17133एम	ए एम सी	20.09.2013
लेफ्टी आतिश सारस्वत	एम एस-17122 ए	ए एम सी	20.09.2013
लेफ्टी उदय प्रताप सिंह	एम एस-17123एच	ए एम सी	20.09.2013
लेफ्टी मोहम्मद जिब्रान खान	एम एस-17125 एन	ए एम सी	20.09.2013
लेफ्टी दीपक शर्मा	एम एस-17121एक्स	ए एम सी	20.09.2013

लेफ्टी अमनीन्दर सिंह	एम एस-17130वाई	ए एम सी	20.09.2013
लेफ्टी देव दत्त	एम एस-17132 के	ए एम सी	20.09.2013

राष्ट्रपति महोदय यथासंशोधित थल सेना अनुदेश 75/78 के अधीन 05 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :-

नियमित सेना

अल्पकालीन आयोग

सर्जन लेफ्टिनेंट पद पर (परख पर)

सर्जन लेफ्टिनेंट पराते किरणकुमार जानेश्वर एम् एस 17064-एफ (76205-टी), आयोग की तिथि 12.02.2013

को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 12.08.2012 से दी जाएगी I (इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल हैं जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी) तथा नोशनल ज्येष्ठता 12.08.2012 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

सर्जन लेफ्टिनेंट प्रियंका	<u>एम एस-17347एच</u> 76254बी	ए एम सी	17.12.2013
सर्जन लेफ्टिनेंट आशीरवाद मधुसूदनन	<u>एम एस - 17355एफ</u> 76249-टी	ए एम सी	19.10.2013
सर्जन लेफ्टिनेंट सन्दीप ए	<u>एम एस-17356के</u> 76250डब्ल्यू	ए एम सी	19.10.2013
सर्जन लेफ्टिनेंट मोसीन कादिर नदरू	<u>एम एस-16983 के</u> 76170एन	ए एम सी	21.09.2012
सर्जन लेफ्टिनेंट दविन्द्र सिंह	<u>एम एस-17364 एच</u> 76273वाई	ए एम सी	13.03.2014
सर्जन लेफ्टिनेंट अनूप मौर्य	<u>एम एस-17169एल</u> 76234एच	ए एम सी	06.08.2013

राष्ट्रपति महोदय यथासंशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन 7 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:-

नियमित सेना

अल्पकालीन कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा)

सर्जन सब लेफ्टिनेंट के पद पर (परख पर)

सर्जन सब लेफ्टिनेंट सौमित्रा खरे	<u>एम एस-17124 एल</u> 76251 वाई	ए एम सी	20.09.2013
----------------------------------	------------------------------------	---------	------------

सर्जन सब लेफ्टिनेन्ट बिनोद बिस्वजीत रौत	एम एस-17131 एफ 76252 जेड	ए एम सी	20.09.2013
---	-----------------------------	---------	------------

धर्मवीर सिंह

ब्रिगे.

उप महानिदेशक (मा.सं.)

सं. 166, तारीख 16 जून 2015—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसरों जिन्हें स्थायी कमीशन (परखावधि पर) प्रदान किया गया था, को स्थायी करते हैं जो कि 02 जुलाई 12 से प्रभावी है। स्थायी करने की मंजूरी पिछली तारीख अर्थात् 02 जुलाई 10 से प्रदान की जाती है।

भारतीय वायु सेना
वैमानिक इंजीनियरी शाखा

फ्लाइट अफसर	अजय कुमार	31930	आई(एल)
फ्लाइट अफसर	मनोज कुमार	32019	आई(एल)
फ्लाइट अफसर	अभिषेक त्रिपाठी	31909	आई(एल)
फ्लाइट अफसर	डेनिस जॉन	31918	आई(एल)
फ्लाइट अफसर	पटवारी लाल यादव	31901	आई(एम)
फ्लाइट अफसर	बी कुमार सिंघल	31919	आई(एल)
फ्लाइट अफसर	सागर शर्मा	31937	आई(एल)
फ्लाइट अफसर	हर्षदीप सिंह	31931	आई(एल)
फ्लाइट अफसर	विवेक चौहान	31904	आई(एल)
फ्लाइट अफसर	शाह नवाज आलम	31912	आई(एल)
फ्लाइट अफसर	अंकित जोशी	32021	आई(एल)
फ्लाइट अफसर	आशीष असिजा	31920	आई(एल)
फ्लाइट अफसर	राहुल कुमार डरोलिया	31924	आई(एल)
फ्लाइट अफसर	नवजीव कुमार शर्मा	31927	आई(एल)
फ्लाइट अफसर	जॉनसन जॉन	31902	आई(एम)
फ्लाइट अफसर	विकास कुमार यादव	31934	आई(एल)
फ्लाइट अफसर	प्रियम वार्ण्य	31907	आई(एल)
फ्लाइट अफसर	गुडला किशन	31939	आई(एल)
फ्लाइट अफसर	अनन्या पांडे	31913	आई(एल)
फ्लाइट अफसर	गौरव कुक्कर	31932	आई(एल)
फ्लाइट अफसर	रोहित एम दास	31936	आई(एल)
फ्लाइट अफसर	दीपक कुमार सिंह	31928	आई(एल)
फ्लाइट अफसर	लव गोयल	31917	आई(एल)
फ्लाइट अफसर	हैप्पी सिंह	31899	आई(एम)
फ्लाइट अफसर	आदित्या नारायण सिंह	31895	आई(एम)
फ्लाइट अफसर	सुमित गोयल	31894	आई(एम)

पलाइंग अफसर	सौरभ गुप्ता	32020	एई(एल)
पलाइंग अफसर	यश मलिक	31915	एई(एल)
पलाइंग अफसर	गुंजन सुमन	32007	एई(एम)
पलाइंग अफसर	अश्विनी सिंह	31923	एई(एल)
पलाइंग अफसर	दीपक यादव	31933	एई(एल)
पलाइंग अफसर	अजय प्रताप सिंह	31905	एई(एल)
पलाइंग अफसर	प्रवीन कुमार हुडा	31908	एई(एल)
पलाइंग अफसर	भरत सिंह	31896	एई(एम)
पलाइंग अफसर	राहुल कुमार	31935	एई(एल)
पलाइंग अफसर	तरुण सचदेवा	31914	एई(एल)
पलाइंग अफसर	नरेनधिरन एस	31916	एई(एल)
पलाइंग अफसर	हबामंत पलभवी	31926	एई(एल)
पलाइंग अफसर	तल्हर चिन्मय किरण	31911	एई(एल)
पलाइंग अफसर	गौरव श्योराण	31921	एई(एल)
पलाइंग अफसर	शाश्वत मिश्रा	32008	एई(एल)
पलाइंग अफसर	विवेक राय	32022	एई(एल)
पलाइंग अफसर	अमित कुमार	32023	एई(एल)
पलाइंग अफसर	के कृष्णा कुमार	31906	एई(एल)
पलाइंग अफसर	शोभित भारद्वाज	32005	एई(एल)
पलाइंग अफसर	रवि टी राज एस आर	31938	एई(एल)
पलाइंग अफसर	सुहेल अब्बास	31900	एई(एम)
पलाइंग अफसर	वरद मुंदगल	31929	एई(एल)
पलाइंग अफसर	सुमित प्राल सिंह वालिया	31922	एई(एल)
पलाइंग अफसर	सैय्यद मोहम्मद रज़ा	31925	एई(एल)
पलाइंग अफसर	मुडे निरंजन मोहन	31910	एई(एल)
पलाइंग अफसर	आशुतोष सैनी	31898	एई(एम)

स्थाई करने की मंजूरी... 02 जुलाई 12 तथा पूर्व दिनांक 02 जुलाई 10 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, वा से आ 59/98 तथा शुद्धिपत्र 10/84 द्वारा यथा संशोधित वा से अनु 2/73 के प्रावधानों के अंतर्गत, 80 ए ई सी के निम्नलिखित अफसरों का अल्प सेवा कमीशन (परिवीक्षाधीन) समाप्त करते हैं तथा उन्हें, उनके नाम के सामने लिखी तारीख से स्थायी कमीशन (परिवीक्षाधीन) प्रदान करते हैं।

भारतीय वायुसेना

वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिक) शाखा

पलाइंग अफसर

नवीन कुमार सिंह

(32252), 07 जनवरी 2013 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, स्थायी कमीशन (परिवीक्षाधीन) प्राप्त निम्नलिखित अफसरों को 07 जनवरी 13 से स्थायी करते हैं। इन्हें 07 जनवरी 11 से पूर्व दिनांकित स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है।

रैंक	नाम	सेवा सं०	शाखा
पलाइंग अफसर	एल प्रवीण कुमार	32253	एई(एल)
पलाइंग अफसर	पाटिल अभिजीत सुरेश	32272	एई(एल)
पलाइंग अफसर	ए के आचार्या	32247	एई(एम)
पलाइंग अफसर	क्षितिज	32249	एई(एम)
पलाइंग अफसर	प्रशांत कोचर	32290	एई(एल)
पलाइंग अफसर	अमर पाण्डे	32250	एई(एम)
पलाइंग अफसर	वैभव शर्मा	32270	एई(एल)
पलाइंग अफसर	प्रवेश शर्मा	32265	एई(एल)
पलाइंग अफसर	ब्रिस्टो थंकचन	32266	एई(एल)
पलाइंग अफसर	आशुतोष वर्मा	32277	एई(एल)
पलाइंग अफसर	राहुल नायर	32364	एई(एल)
पलाइंग अफसर	अनुराग कुमार सिंह	32264	एई(एल)
पलाइंग अफसर	ए अरुण पराशर	32256	एई(एल)
पलाइंग अफसर	लोकेश एस	32269	एई(एल)
पलाइंग अफसर	अरुण यादव	32302	एई(एल)
पलाइंग अफसर	सिद्धार्थ त्रिपाठी	32260	एई(एल)
पलाइंग अफसर	नीनाद अंजली वामन	32254	एई(एल)
पलाइंग अफसर	अवनीश कुमार सिंह	32262	एई(एल)
पलाइंग अफसर	रंजीता	32295	एई(एल)
पलाइंग अफसर	तरुण चंदेल	32245	एई(एम)
पलाइंग अफसर	मनीष यादव	32287	एई(एल)
पलाइंग अफसर	वी प्रताप सिंह	32284	एई(एल)
पलाइंग अफसर	ऋषि राज	32248	एई(एम)
पलाइंग अफसर	सिबी सी मैथ्यू	32285	एई(एल)
पलाइंग अफसर	एस एस चौहान	32258	एई(एल)
पलाइंग अफसर	सुधांशु त्यागी	32294	एई(एल)
पलाइंग अफसर	अमित गुप्ता	32286	एई(एल)
पलाइंग अफसर	एस के शर्मा	32244	एई(एम)
पलाइंग अफसर	विवेक कुमार	32274	एई(एल)
पलाइंग अफसर	सुमीत गहलावत	32268	एई(एल)
पलाइंग अफसर	मनीष अरोड़ा	32280	एई(एल)
पलाइंग अफसर	धर्मज्ञ सिंह	32743	एई(एल)
पलाइंग अफसर	एस विगनेश	32279	एई(एल)

पलाइंग अफसर	अभिमन्यु सिंह	32293	एई(एल)
पलाइंग अफसर	डब्बीरू रवि	32291	एई(एल)
पलाइंग अफसर	हिमांशु भंडारी	32300	एई(एल)
पलाइंग अफसर	राहुल दहिया	32289	एई(एल)
पलाइंग अफसर	सजल श्याम सिंह	32251	एई(एम)
पलाइंग अफसर	सर्वजीत सिंह	32267	एई(एल)
पलाइंग अफसर	अरविंद कुमार कदियान	32363	एई(एल)
पलाइंग अफसर	शिखर अग्रवाल	32263	एई(एल)
पलाइंग अफसर	प्रथमेश जैन	32275	एई(एल)
पलाइंग अफसर	शिवा	32259	एई(एल)
पलाइंग अफसर	इन्द्र सेतिया	32292	एई(एल)
पलाइंग अफसर	संतोष मणि	32298	एई(एल)
पलाइंग अफसर	आनंद कुमार झा	32744	एई(एल)
पलाइंग अफसर	रोहित गुप्ता	32281	एई(एल)
पलाइंग अफसर	एबिन फ्रांसिस	32299	एई(एल)
पलाइंग अफसर	सुभाजीत मजूमदार	32255	एई(एल)
पलाइंग अफसर	गुरासीस सिंह	32273	एई(एल)
पलाइंग अफसर	अंकित सतीजा	32257	एई(एल)
पलाइंग अफसर	लोकेश पुरोहित	32271	एई(एल)
पलाइंग अफसर	आसिफ नजीर बेग	32261	एई(एल)
पलाइंग अफसर	विनय अतरी	32288	एई(एल)
पलाइंग अफसर	श्रीराज आर	32282	एई(एल)
पलाइंग अफसर	कलबली बेग सरकेल	32246	एई(एम)
पलाइंग अफसर	एम श्री रघु वामसी	32301	एई(एल)
पलाइंग अफसर	अंकुश राजपूत	32276	एई(एल)
पलाइंग अफसर	अभिषेक	32283	एई(एल)
पलाइंग अफसर	रोहित	32296	एई(एल)
पलाइंग अफसर	कृपाल चौधरी	32297	एई(एल)

राष्ट्रपति, स्थायी कमीशन प्राप्त निम्नलिखित अफसरों को, उनके नाम के सामने दी गई तारीख से स्थायी करते हैं :-

भारतीय वायुसेना

प्रशासनिक शाखा

पलाइंग अफसर कमल कुमार मिश्रा (32138), संदीप शर्मा (32139), विशाल व्यास (32140), पीयूष पारस नाथ शुक्ला (32141), गगन दीप सिंह राज (32143), गोविल गौतम (32144), विपुल मौर्या (32145), विवके गुरंग (32146), गौरव शर्मा (32147), 29 दिसम्बर 11 से प्रभावी।

संभारिकी शाखा

पलाइंग अफसर मुकेश यादव (32148), शिवम त्रिवेदी (32149), सत्यम भारती (32150), अमित मिश्रा (32151) 29 दिसम्बर 11 से प्रभावी।

लेखा शाखा

पलाइंग अफसर सीताराम प्रसाद नौटियाल (32153), वरुण शर्मा (32154), प्रकाशकुमार जोशी (32155), बास्करन सुजीत (32156), 29 दिसम्बर 11 से प्रभावी।

मौसम विज्ञान शाखा

पलाइंग अफसर भास्कर ज्योति सिन्हा (31699), ऋषिकेश पेदीना (31701), 29 दिसम्बर 11 से प्रभावी।

भारतीय वायुसेना

प्रशासनिक शाखा

महेश कुमार हिरालकर (32142), 29 दिसम्बर 11 से प्रभावी।

लेखा शाखा

पलाइंग अफसर अतुल कुमार (32152), 29 दिसम्बर 11 से प्रभावी।

शिक्षा शाखा

पलाइंग अफसर मनप्रीत सिंह (32157) 29 दिसम्बर 11 से प्रभावी।

भारतीय वायु सेना

प्रशासन शाखा

पलाइंग अफसर वी कुन्दल (29954) 21 जून 2008 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, 51 एस एस सी (टी) के निम्नलिखित अफसर जिन्हें अल्पकालिक सेवा कमीशन (परखावधि पर) प्रदान किया गया है को उनके नाम के आगे दी गई तारीख से स्थाई करने की मंजूरी प्रदान करते हैं।

भारतीय वायुसेना

वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिकी)

पलाइंग अफसर रोहित कुमार (32029) 02 जुलाई 12 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, अल्प सेवा कमीशन प्राप्त निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से स्थायी करते हैं:-

भारतीय वायुसेना

पलाइंग (पायलट) शाखा

पलाइंग अफसर पल्लवी मोहापात्रा 31885 एफ(पी)

—19 जून 11 से प्रभावी

राष्ट्रपति, अल्प सेवा कमीशन प्राप्त निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से स्थायी करते हैं:-

भारतीय वायु सेना

उड़ान (नेवीगेटर) शाखा

पलाइंग अफसर स्वर्णिम अवस्थी (32217), सपना मलिक (32218), 29 दिसम्बर 2011 से प्रभावी

उड़ान (पायलट) शाखा

पलाइंग अफसर नाज़िया एम नदाफ (32214), निशा जैन (32215), गिन्नी चौधरी (32216), 29 दिसम्बर 2011 से प्रभावी

उड़ान (पायलट) शाखा

पलाइंग अफसर	देवांक शर्मा	31816	एफ(पी)	18 जून 2011
पलाइंग अफसर	कंदर्प सुरानी	31817	एफ(पी)	18 जून 2011
पलाइंग अफसर	रंजीत आर नायर	31818	एफ(पी)	18 जून 2011
पलाइंग अफसर	राजेंद्र सिंह	31819	एफ(पी)	18 जून 2011
पलाइंग अफसर	कर्लाप्पुडी राघव	31820	एफ(पी)	18 जून 2011
पलाइंग अफसर	अंकुर पंवार	31821	एफ(पी)	18 जून 2011

पलाइंग अफसर	अभिमन्यु सिंह	31822	एफ(पी)	18 जून 2011
पलाइंग अफसर	मयंक अभिषेक	31823	एफ(पी)	18 जून 2011
पलाइंग अफसर	श्रीनाथ एस	31827	एफ(पी)	18 जून 2011
पलाइंग अफसर	शालीन शर्मा	31828	एफ(पी)	18 जून 2011
पलाइंग अफसर	विनीत जोशी	31829	एफ(पी)	18 जून 2011
पलाइंग अफसर	आजाद शुक्ला	31830	एफ(पी)	18 जून 2011
पलाइंग अफसर	परिक्षित फागरे	31831	एफ(पी)	18 जून 2011
पलाइंग अफसर	जैस मॉन राजू	31832	एफ(पी)	18 जून 2011
पलाइंग अफसर	गुरइकबाल सिंह कुतवाल	31833	प्रभावी	18 जून 2011
पलाइंग अफसर	रणवीर सिंह	31834	एफ(पी)	18 जून 2011
पलाइंग अफसर	अवनीत पटयाल	31835	एफ(पी)	18 जून 2011
पलाइंग अफसर	सत्यप्रकाश मिश्रा	31837	एफ(पी)	18 जून 2011
पलाइंग अफसर	दीपक सेठ	31840	एफ(पी)	18 जून 2011

उड़ान (नेवीगेटर) शाखा

पलाइंग अफसर विनीत कुमार (32162), क्षितिज भारत श्रीवास्तव (32173), समुंदर सिंह सोढ़ा (32178), शेल्ले हरशद सखाहरि (32181), निखिल त्यागी (32184), अर्जुन मल्होत्रा (32187), वेणु गोपाल कृष्णा दासारी (32191), कपिल शुक्ला (32193), हरिहरण विनोद (32195), प्रत्युष गोपालन (32197), सुमित असवाल (32198), 29 दिसम्बर 2011 से प्रभावी

राष्ट्रपति 05 एस एस सी(एम) पी सी के अल्प सेवा कमीशन (परिवीक्षाधीन) प्राप्त निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से स्थायी करते हैं :-

भारतीय वायु सेना

उड़ान (पायलट) शाखा

पलाइंग अफसर	अजय वीर सिंह	31825	प्रभावी	18 जून 2011
पलाइंग अफसर	मंचेकर सिंह	31826	प्रभावी	18 जून 2011

उड़ान (नेवीगेटर) शाखा

पलाइंग अफसर	अनीशानीश मेनन	31824	प्रभावी	18 जून 2011
पलाइंग अफसर	चंदन चौधरी	31836	प्रभावी	
पलाइंग अफसर	सोमैया जी चोवंडा	31838	प्रभावी	
पलाइंग अफसर	गगनदीप सिंह मारवाह	31839	प्रभावी	
पलाइंग अफसर	सहिल जैन	31841	प्रभावी	

राष्ट्रपति, अल्पकालिक कमीशन (परिवीक्षा पर) प्राप्त निम्नलिखित अफसरों को उनके नामों के सामने दी गई तारीखों से स्थायी करने की मंजूरी प्रदान करते हैं :-

भारतीय वायुसेना

प्रशासनिक शाखा

पलाइंग अफसर	भीम बहादुर लामा	31222 प्रशासनिक
पलाइंग अफसर	बिनय दीप रावत	31223 प्रशासनिक

पलाइंग अफसर	शशांत सिंह भदोरया	31228 प्रशासनिक
पलाइंग अफसर	प्रवेश कुमार गोस्वामी	31229 प्रशासनिक

स्थायी करने की मंजूरी —19 जून 10 से प्रभावी।

तरुण खरे
विंग. कमांडर
संयुक्त निदेशक, कार्मिक अफसर-3(डी)

सं. 167, तारीख 17 जून 2015—राष्ट्रपति, सहर्ष 81 ए ई सी के स्थायी कमीशन (परिवीक्षाधीन) प्राप्त निम्नलिखित अफसरों को 8 जुलाई 2013 से स्थायी करते हैं। इन्हें 8 जुलाई 2011 से पूर्व दिनांकित स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है।

भारतीय वायु सेना

वैमानिकी इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिक्स) शाखा

पलाइंग अफसर चिंटु कृष्णन विजयाराघवन (32609), अभिनव शर्मा (32610), सुमन मजुमदार (32611), रोहित प्रभुनाथ प्रसाद (32612), रवि कुमार (32613), प्रध्वी राज सीपाना (32614), प्रणव शर्मा (32615), स्मृति संतक मोहंती (32725), राजेश कुमार मोहापात्रा (33123) 8 जुलाई 13 से प्रभावी। इन्हें 8 जुलाई 2011 से पूर्व दिनांकित स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रपति, अल्प सेवा कमीशन प्राप्त निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से स्थायी करते हैं :-

भारतीय वायुसेना

उड़ान (पायलट) शाखा

पलाइंग अफसर दीपक खीरिया (32494), गुरप्रीत सिंह रिस्सम (32495), निपुण सैनी (32496), विवेक गैरोला (32497), शशांक (32500), निखिल किशोर (32501), मुकेश के (32502), भारत कौशिक (32503), अजीन जकारिया (32504), दीपान्धु दीक्षित (32505), नरेन्द्र सिंह (32506), अरुण बी (32507), विकास (32508), एम प्रवीण कुमार (32509), आदित्य वर्मा (32511), अमनदीप सिंह दिहोट (32512), वैभव शर्मा (32514), जीजो जॉन (32516), तरुण कुमार गुप्ता (32517), रविन्दर सिंह बंसल (32520), विष्णु गोपीनाथ (32521), आदित्य खत्री (32522), गौरव शर्मा (32523), दलवीर सिंह भंगू (32524), देवेन्द्र यादव (32526), अमित मलिक (32527), 30 जून 12 से प्रभावी

डी शर्मा
विंग कमांडर
संयुक्त निदेशक, कार्मिक अफसर-3(डी)

सेना शाखा

सं. 168, दिनांक 18 जून 2015—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को पदोन्नति करते हैं:-

नियमित सेना

स्थायी आयोग

सेना चिकित्सा कोर (गैर तकनीकी)

कप्तान से मेजर के पद पर

मेजर दीपक राव एस (एन टी एस-17554-पी अब एन टी आर-16898एफ) -20 मार्च 2013

(भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 03 मई 2014 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहाँ तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

मेजर अनुज कुमार (एन टी एस-17560-एच अब एन टी आर-16899के) - 15 फरवरी 2014

(भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहाँ तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

व्यक्तिगत संख्या	पद	नाम	पदोन्नति की तिथि
एन टी आर-16765- एल	कप्तान	परि के	20 मार्च 2013

लेफ्टिनेंट से कप्तान के पद पर

कप्तान बिभूती कुमार साहू (एन टी एस-17595-वाई अब एन टी आर-16902-वाई) – 23 अप्रैल 2013

(भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 03 मई 2014 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहाँ तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान विजय सिंह (एन टी एस-17592-एल अब एन टी आर-16901-डब्ल्यू) – 23 अप्रैल 2013

(भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 03 मई 2014 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहाँ तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान सत्यनारायण (एन टी एस-17584-एम अब एन टी आर-16900-एन) – 07 अप्रैल 2012

(भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 19 जनवरी 2013 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहाँ तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान अनुज कुमार (एन टी एस-17560-एच अब एन टी आर-16899-के) - 15 फरवरी 2010

(भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 28 अगस्त 2010 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहाँ तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान दीपक राव एस (एन टी एस-17554-पी अब एन टी आर-16898-एफ) - 20 मार्च 2009

(भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 22 अगस्त 2009 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहाँ तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

धर्मवीर सिंह

ब्रिगे.

उप महानिदेशक (मा.सं.)

सेना शाखा

सं. 169, दिनांक 19 जून 2015—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को दिनांक 05 जनवरी 2015 से अल्पकालिक सेवा आयोग (सेना चिकित्सा कोर) से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 10/2001 यथा संशोधित के अधीन उपरोक्त तिथि से स्थायी आयोग प्रदान करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी आयोग

सेना चिकित्सा कोर(गैर तकनीकी)

लेफ्टिनेंट के पद पर

लेफ्टिनेंट दीपक राव एस (एन टी एस-17554-पी अब एन टी आर-16898-एफ) - 20 मार्च 2007

(भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 09 फरवरी 2008 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहाँ तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

लेफ्टिनेंट अनुज कुमार (एन टी एस-17560-एच अब एन टी आर-16899-के) - 15 फरवरी 2008

(भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 18 अक्टूबर 2008 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहाँ तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

लेफ्टिनेंट सत्यनारायण (एन टी एस-17584-एम अब एन टी आर-16900-एन) – 07 अप्रैल 2010

(भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 30 अप्रैल 2011 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहाँ तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

लेफ्टिनेंट विजय सिंह (एन टी एस-17592-एल अब एन टी आर-16901-डब्ल्यू) – 23 अप्रैल 2011

(भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 21 अप्रैल 2012 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहाँ तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

लेफ्टिनेंट बिभुती कुमार साहू (एन टी एस-17595-वाई अब एन टी आर-16902-वाई) – 23 अप्रैल 2011

(भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 21 अप्रैल 2012 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहाँ तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

धर्मवीर सिंह

ब्रिगे.

उप महानिदेशक स.से.चि.से (मा .सं.)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 11th July 2015

D(MS) SECTION

No. 164, dated 12th June 2015—The President of India has made the following appointment on his Honorary Personal Staff with effect from 01 April 2015: -

Honorary Naval ADC

Vice Admiral SPS Cheema, PVSM, AVSM, NM (01704Y)

REVATI RAMAN
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 165, dated 15th June 2015—The President is pleased to make the following appointment for a period of 5 years under AI 75/78 as amended :-

REGULAR ARMY
SHORT SERVICE COMMISSION
TO BE CAPT

MS-17067-P CAPT DIBENDU GHOSH DOC : 16.03.2013

With seniority for pay and promotion from 16.09.2012. This includes 06 months antedate for hospital appointment as Junior Resident, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

MS-17166X CAPT SANDEEP DHAKA DOC : 06.08.2013

With seniority for pay and promotion from 06.02.2013. This includes 06 months antedate seniority for hospital appointment as Junior Resident, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

(TO BE CAPT ON PROBATION)

CAPT RAKHI MOHAN MS-16954P DOC-01.12.2012

With seniority for pay and promotion from 01.12.2009. This includes 36 months antedate for DND (Obstetrics & Gynaecology), which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

(TO BE CAPT)

CAPT BHAGYALEKSHMI S (MS-17200M) DOC- 06.08.2013

With seniority for pay and promotion from 06.02.2013. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT MANVEER SINGH (MS-17138L) DOC- 06.08.2013

With seniority for pay and promotion from 06.02.2013. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT VARUN KUMAR (MS-17065K) DOC- 12.02.2013

With seniority for pay and promotion from 12.08.2012. This includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification Publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

TO BE CAPT (ON PROBATION)

CAPT VAIDEHI C RAJWADKAR MS-17225Y DOC-19.10.2013

With seniority for pay and promotion from 19.10.2010. This includes 36 months antedate for MD(Microbiology), which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

(TO BE CAPT)

MS-16961L CAPT NITIN PAHUJA DOC- 21.09.2012

With seniority for pay and promotion from 21.09.2009. This includes 36 months antedate for PG Degree (MD in Anaesthesia), which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

MS-17140H CAPT SUSHMA MANRAL DOC- 06.08.2013

With seniority for pay and promotion from 06.02.2010. This includes 36 months antedate for PG Degree (MD in Biochemistry) and 06 months for hospital appointment as Senior Resident, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

(TO BE CAPT ON PROBATION)

CAPT SRINIWAS GUPTA MS-17157W DOC-06.08.2013

With seniority for pay and promotion from 06.08.2010. This includes 36 months antedate seniority for M.D. (Psychiatry), which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT MOHAN ANGADI	MS-16952K	AMC	11.09.2012
CAPT SANGHITA BARUI	MS-17240N	AMC	21.09.2013
CAPT PARIKSHIT SANYAL	MS-17241W	AMC	21.09.2013
CAPT DEEPSHIKHA PANDEY	MS-17257F	AMC	19.10.2013
CAPT PRATEEK AGARWAL	MS-17261K	AMC	19.10.2013
CAPT MANINDRA SINGH PARIHAR	MS-17262M	AMC	19.10.2013
CAPT SHEETAL KUMAR	MS-17282A	AMC	11.02.2014
CAPT NAVEEN KR	MS-17283H	AMC	11.02.2014
CAPT RITU SUDAN TIWARI	MS-17203A	AMC	06.08.2013
CAPT SHYAM SINGH GURJAR	MS-17246P	AMC	19.10.2013
CAPT MANDEEP KAUR KINGRA	MS-17285N	AMC	11.02.2014
CAPT LALIT KHAWSE	MS-17287Y	AMC	13.03.2014
CAPT DEEPAK H	MS-17293M	AMC	16.04.2014
CAPT AMIT KUMAR MOHANTY	MS-17354Y	AMC	16.04.2014
CAPT ABHINAV KUMAR VERMA	MS-17361P	AMC	17.12.2013
CAPT PURWINDER THAKUR	MS-17363A	AMC	11.02.2014
CAPT AMOSH TAMANG	MS-17263 P	AMC	19.10.2013
CAPT ASHISH KUMAR GOYAL	MS-16953M	AMC	21.09.2012
CAPT DIPTI PATIL	MS-17215P	AMC	19.10.2013
CAPT SUPEETI GUPTA	MS-16642Y	AMC	15.06.2010
CAPT KHARCHE CHETAN RAMCHANDRA	MS-17279A	AMC	11.02.2014
CAPT RAJ KUMAR YADAV	MS-17366N	AMC	17.12.2013
CAPT SHIREEN DEEPTHI S	MS-17227K	AMC	19.10.2013
CAPT PRABHAKARAN K	MS-17265A	AMC	17.12.2013
CAPT HARIS JAFRI	MS-17268N	AMC	17.12.2013
CAPT ROHITH RAVEENDRAN	MS-17271N	AMC	17.12.2013
CAPT ABHIMANYU MADINENI	MS-17272W	AMC	17.12.2013
CAPT MANU TIWARI	MS-17274F	AMC	11.02.2014

CAPT SIDHARTH GOEL	MS-17290Y	AMC	13.03.2014
CAPT SIVA PRASAD RENTALA	MS-17291F	AMC	16.04.2014
CAPT SARATH CHANDRAN CR	MS-17292K	AMC	16.04.2014
CAPT ANKUSH MALHOTRA	MS-17352N	AMC	11.02.2014
CAPT NAGARAJU GUNDETI	MS-17249H	AMC	19.10.2013
CAPT RANAJOY DUTTA	MS-17252H	AMC	19.10.2013
CAPT SEEMA CHAPRANA	MS-17254N	AMC	19.10.2013
CAPT DWARIKA TIWARI	MS-17255W	AMC	19.10.2013
CAP T ASHISH RAPRIA	MS-17212F	AMC	19.10.2013
CAP T AKHIL DAS	MS-17250X	AMC	19.10.2013
CAPT DEEPAK RAJ BHATT	MS-17253L	AMC	19.10.2013
CAPT OLASSAYIL SIJO SEBASTIAN	MS-17269W	AMC	17.12.2013
CAPT BIJENDER SINGH	MS-17275K	AMC	11.02.2014
CAPT SHARANAPPA	MS-17278X	AMC	11.02.2014
CAPT SRINIVASA KUMAR MAHANTHA MN	MS-17348L	AMC	17.12.2013

TO BE FLT LT

FLT LT AMARDEEP KAUR RANDHAWA MS-16984-M (AF-32378-A) DOC-21-09-2012

With seniority for pay and promotion from 21.09.2009. This includes 36 months antedate for PG Degree MD (Paediatrics) issued by Saurashtra University, Rajkot, which will not count for gratuity. Refer DGAFMS letter No 34992/DGAFMS/DG-18 (ii) dated 23 Dec 2013.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

FLT LT YADAV SAGAR SHYAMLAL MS-16884-F (AF-32062L) DOC-17-01-2012

With seniority for pay and promotion from 17-07-2011. This includes 6 months antedate for housejob as Medical Officer Class 2 at Civil Hospital, Amravati, which will not count for gratuity. Refer DGAFMS/DG-1B(ii) letter No 34892/DGAFMS/DG-1B (ii) dated 13 Nov 2013.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

FLT LT ANANT OBEROI MS-16881-N (AF-32063R) DOC- 17-01-2012

With seniority for pay and promotion from 17.07.2011. This includes 06 months antedate for housejob appointment as Junior Resident Doctor at GTB Hospital, Govt of NCT Delhi, which will not count for gratuity. Refer DGAFMS/DG-1B(ii) letter No 34889/DGAFMS/DG-1B (ii) dated 29 Nov 2013.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

FLT LT VIKAS SHARMA MS-17119-A (AF-32383-H) DOC-21-09-2012

With seniority for pay and promotion from 21.09.2010. This includes 24 months antedate for PG Diploma (Ophthalmology), which will not count for gratuity. Refer DGAFMS letter No 35127/DGAFMS/DG-1B(ii) dt. 27 May 2014.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

MS-17142-N FLT LT CHERUSSERIKKARAN BETSY ANTHONY (AF-33139-S) DOC-06.08.2013

With seniority for pay and promotion from 06.08.2010. This includes 36 months antedate seniority for Doctor of Medicine (Community Medicine) which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

FLT LT SUSHREE SANGITA KHATUA MS-17239Y (AF-33147 R) DOC-17.09.13

With seniority for pay and promotion from 17.09.10. This includes 36 months antedate seniority for PG Degree (MD Aviation Medicine) which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

FLT LT SNEHA DINAKAR MS-17238W (AF-33146 L) DOC-17.09.2013

With seniority for pay and promotion with effect from 17.09.2010. This includes 36 months antedate seniority for PG Degree (Doctor of Medicine in Aviation Medicine) which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification published in Govt. of India Gazette so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

FLT LT SOURAV GAIN MS-17117P (AF-33144 F) DOC- 13.08.13

With seniority for pay and promotion from 13.02.13. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

TO BE FLT LTCAPT ON PROBATION

FLT LT NAMITA CHOUDHRY MS-17158Y (AF-33140 K) DOC-06.08.2013

With seniority for pay and promotion from 06.08.10. This includes 36 months antedate for PG Degree MS(Ophthalmology), which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

TO BE FLT LT

FLT LT ABIN STANLEY MS-16832-L (AF-32051B) DOC-27-09-2011

With seniority for pay and promotion from 27-03-2011. This includes 6 months antedate for housejob as Medical Officer at Govt Taluk Hospital, Peermedu, Idukki Dist, Kerala, which will not count for gratuity. Refer DGAFMS/DG-1B (ii) letter No 34841/DGAFMS/DG-1B (ii) dated 13 Nov 2013.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

FLT LT S.BALAJI MS-16796-L (AF-31409F) DOC-26-08-2010

With seniority for pay and promotion from 26.08.2008. This includes 24 months antedate for PG Diploma (Anaesthesiology) issued by Maharashtra University of Health Sciences, Nasik, which will not count for gratuity. Refer DGAFMS/DG-1B (ii) letter No 34805/DGAFMS/DG-1B (ii) dated 05 Nov 2013.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

FLT LT TIWARI VIBHA BADRI VISHAL MS-17165K (AF-33138-N) DOC-06.08.2013

With seniority for pay and promotion from 06.02.2010. This includes 36 months antedate seniority for PG Degree (M.D. Community Medicine) and six months for hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

TO BE FLT LTCAPT ON PROBATION

FLT LT RAHUL KUMAR MS-17242Y (AF-33150 R) DOC-11.10.2013

With seniority for pay and promotion from 11.10.2011. This includes 24 months antedate seniority for PG Diploma in Dermatolgy, Venereology and Leprosy, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

FLT LT JAVED IQBAL MS-17068X (AF-32388-G) DOC- 16.03.2013

With seniority for pay and promotion from 16.09.2012. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

FLT LT KULKARNI ANIKET ASHOK MS-16949K (AF-32375 K) DOC-04.09.2012

With seniority for pay and promotion from 04.03.2009. This includes 36 months antedate for PG Degree MD(Community Medicine) and six months for Hospital appointment, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

FLT LT VIJAY S MS-16950Y (AF-32374 G) DOC-04.09.2012

With seniority for pay and promotion from 04.09.2009. This includes 36 months antedate for PG Degree MD(Community Medicine) which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

TO BE FLT LT

FLT LT BIPLAB BHATTARAI MS-15854X (AF-30040 R) DOC- 12.08.2008

With seniority for pay and promotion from 12.02.2008. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

FLT LT K M MEHDI HAFIZ LASKAR MS-16821-Y (AF-32054N) DOC-27-09-2011

With seniority for pay and promotion from 27-03-2011. This includes 6 months antedate for housejob as Medical Officer at Bongaon State Dispensary, Jorhat, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

(To be FLT LT on probation)

FLT LT DIVYA N	MS-17209 F (AF-33145H)	AMC	17.09.2013
FLT LT BRIJESH KUMAR SINGH	MS-17340Y (33465A)	AMC	19.10.2013
FLT LT SAMPATH KUMAR BATTULA	MS-17343M (AF-33463N)	AMC	19.10.2013
FLT LT GURSHARAN SINGH GILL	MS-17277P (33674-S)	AMC	11.02..2014
FLT LT DEBARSHI GUHA	MS-17341F (33467-H)	AMC	19.10.2013
FLT LT YUJVENDER SINGH THAKUR	MS- 17345X (33471-L)	AMC	19.10.2013
FLT LT ANURADHA	MS-17280P (33675-A)	AMC	11.02.2014
FLT LT ANKITA SHARMA	MS-17041A (AF-32387B)	AMC	29.12.2012
FLT LT NAGPURKAR ASHISH SHRIRAM	MS-17070P (AF-32389K)	AMC	16.03.2013
FLT LT MAYANK NEGI	MS-17148P (AF-33134T)	AMC	06.08.2013
FLT LT CHANDAN TIWARI	MS-17167A (AF-33133R)	AMC	06.08.2013
FLT LT VIVEK SINGH	MS-17251A (AF-33129L)	AMC	18.04.2013
FLT LT SHEELA P	MS-17362X (33673N)	AMC	11.02.2014
FLT LT MAKWANA DIPAK MANSUKHBHAI	MS-17367W (33668G)	AMC	17.12.2013
FLT LT KIRAN SANNALLI	MS-17256 Y (AF-33468-L)	AMC	19.10.2013

The President is pleased to make the following appointments for a period of 7 years under AI 75/78 as amended :

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

(To be FG OFFR on probation)

FG OFFR ANKIT BATRA	MS-17071X 32739-L	AMC	18.03.2013
FG OFFR NEHA CHAUHAN	MS-17075N 32738-H	AMC	18.03.2013
FG OFFR CP SHANTHANU	MS-17098P 32740-F	AMC	18.03.2013
FG OFFR UMESH KUMAR MISHRA	MS-17120 P (AF-33148 T)	AMC	20.09.2013
FG OFFR ALTHAMUS	MS-17129 K (AF-33149 A)	AMC	20.09.2013

The President is pleased to make the following appointments for a period of 7 years under AI 75/78 as amended:

REGULAR ARMY
SHORT SERVICE COMMISSION
(To be LIEUT on probation)

LT MATHEWS N MATHEW	MS-17127Y	AMC	20.09.2013
LT PRASHANT SHUKLA	MS-17128F	AMC	20.09.2013
LT ASHWIN VALSAN	MS-17133M	AMC	20.09.2013
LT AATISH SARASWAT	MS-17122A	AMC	20.09.2013
LT UDAI PRATAP SINGH	MS-17123H	AMC	20.09.2013
LT MOHAMMED JIBRAN KHAN	MS-17125N	AMC	20.09.2013
LT DEEPAK SHARMA	MS-17121X	AMC	20.09.2013
LT AMNINDER SINGH	MS-17130Y	AMC	20.09.2013
LT DEV DUTT	MS-17132K	AMC	20.09.2013

The President is pleased to make the following appointments for a period of 5 years under AI 75/78 as amended :-

REGULAR ARMY
SHORT SERVICE COMMISSION
(TO BE SURG LT ON PROBATION)

SURG LT PARATE KIRANKUMAR DNYANESHWAR MS-17064F (76205-T) DOC- 12.02.13

With seniority for pay and promotion from 12.08.12. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence Notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

SURG LT PRIYANKA	MS-17347H 76254B	AMC	17.12.2013
SURG LT ASHIRVAD MADHUSOODANAN	M-17355F 76249T	AMC	19.10.2013
SURG LT SANDEEP A	M-17356K 76250W	AMC	19.10.2013
SURG LT MOHSIN QADIR NADROO	MS-16983K 76170N	AMC	21.09.2012
SURG LT DAVINDER SINGH	MS-17364H 76273Y	AMC	13.03.2014
SURG LT ANUP MAURYA	MS-17169-L (76234-H)	AMC	06.08.2013

The President is pleased to make the following appointments for a period of 7 years under AI 75/78 as amended:

REGULAR ARMY
SHORT SERVICE COMMISSION
(To be SURG SUB LT on probation)

SURG SUB LT SOUMITRA KHARE	MS-17124L 76251 Y	AMC	20.09.2013
SURG SUB LT BINOD BISWAJEET ROUT	MS-17131F 76252 Z	AMC	20.09.2013

DV SINGH
Brig
Dy DGAFMS (HR)

No. 166, dated 16th June 2015—The President is pleased to confirm the undermentioned officers who were granted Permanent Commission (on Probation)wef 02 Jul 12. They are granted ante date wef 02 Jul 10

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING BRANCH

Fg Offr	AJAY KUMAR	31930	AE(L)
Fg Offr	MANOJ KUMAR	32019	AE(L)
Fg Offr	ABHISHEK TRIPATHI	31909	AE(L)
Fg Offr	DENNIS JOHN	31918	AE(L)
Fg Offr	PATWARI LAL YADAV	31901	AE(M)
Fg Offr	B KUMAR SINGHAL	31919	AE(L)
Fg Offr	SAGAR SHARMA	31937	AE(L)
Fg Offr	HARSHDEEP SINGH	31931	AE(L)
Fg Offr	VIVEK CHAUHAN	31904	AE(L)
Fg Offr	SHAH NAWAZ ALAM	31912	AE(L)
Fg Offr	ANKIT JOSHI	32021	AE(L)
Fg Offr	ASHISH ASEEJA	31920	AE(L)
Fg Offr	RAHUL KUMAR DROLIA	31924	AE(L)
Fg Offr	NAVJEEV KUMAR SHARMA	31927	AE(L)
Fg Offr	JOHNSON JOHN	31902	AE(M)
Fg Offr	VIKASH KUMAR YADAV	31934	AE(L)
Fg Offr	PRIYAM VARSHNEY	31907	AE(L)
Fg Offr	GUDLA KISHAN	31939	AE(L)
Fg Offr	ANANYA PANDEY	31913	AE(L)
Fg Offr	GAURAV KUKKAR	31932	AE(L)
Fg Offr	ROHIT M DAS	31936	AE(L)
Fg Offr	DEEPAK KUMAR SINGH	31928	AE(L)
Fg Offr	LOVE GOYAL	31917	AE(L)
Fg Offr	HAPPY SINGH	31899	AE(M)
Fg Offr	ADITYA NARAYAN SINGH	31895	AE(M)
Fg Offr	SUMEET GOEL	31894	AE(M)
Fg Offr	SAURABH GUPTA	32020	AE(L)
Fg Offr	YASH MALIK	31915	AE(L)
Fg Offr	GUNJAN SUMAN	32007	AE(M)
Fg Offr	ASWINI SINGH	31923	AE(L)
Fg Offr	DEEPAK YADAV	31933	AE(L)
Fg Offr	AJAY PRATAP SINGH	31905	AE(L)
Fg Offr	PARVEEN KUMAR HOODA	31908	AE(L)
Fg Offr	BHARAT SINGH	31896	AE(M)
Fg Offr	RAHUL KUMAR	31935	AE(L)

Fg Offr	TARUN SACHDEVA	31914	AE(L)
Fg Offr	NARENDHIRAN S	31916	AE(L)
Fg Offr	HABAMANT PALABHAVI	31926	AE(L)
Fg Offr	TALHAR CHINMAY KIRAN	31911	AE(L)
Fg Offr	GAURAV SHEORAN	31921	AE(L)
Fg Offr	SHASHWAT MISHRA	32008	AE(L)
Fg Offr	VIVEK RAI	32022	AE(L)
Fg Offr	AMIT KUMAR	32023	AE(L)
Fg Offr	K KRISHNA KUMAR	31906	AE(L)
Fg Offr	SHOBHIT BHARADWAJ	32005	AE(L)
Fg Offr	RAVI T RAJ SR	31938	AE(L)
Fg Offr	SUHAIL ABBAS	31900	AE(M)
Fg Offr	VARAD MUDGAL	31929	AE(L)
Fg Offr	SUMIT PRAL SINGH WALIA	31922	AE(L)
Fg Offr	SYED MOHAMMAD RAZA	31925	AE(L)
Fg Offr	MUDE NIRANJAN MOHAN	31910	AE(L)
Fg Offr	ASHUTOSH SAINI	31898	AE(M)

Confirmation w.e.f. 02 Jul 12 and ante date 02 Jul 10

The President is pleased to confirm the under mentioned officer who was granted Permanent Commission (on Probation) wef 07 Jan 13. The offr is granted ante date wef 07 Jan 11

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS) BRANCH

Fg Offr Navin Kumar Singh (32252), wef 07 Jan 13.

The President is pleased to confirm the under mentioned officers who were granted Permanent Commission (on Probation) wef 07 Jan 13. They are granted ante date wef 07 Jan 11.

Rank	Name	Service No	Branch
Fg Offr	L PRAVEEN KUMAR	32253	AE(L)
Fg Offr	PATIL ABHIJIT SURESH	32272	AE(L)
Fg Offr	AK ACHARYA	32247	AE(M)
Fg Offr	KSHITIJ	32249	AE(M)
Fg Offr	PRASHANT KOCHHAR	32290	AE(L)
Fg Offr	AMAR PANDEY	32250	AE(M)
Fg Offr	VAIBHAV SHARMA	32270	AE(L)
Fg Offr	PRAVESH SHARMA	32265	AE(L)
Fg Offr	BRISTOW THANKACHAN	32266	AE(L)
Fg Offr	ASHUTOSH VERMA	32277	AE(L)
Fg Offr	RAHUL NAIR	32364	AE(L)
Fg Offr	ANURAG KUMAR SINGH	32264	AE(L)
Fg Offr	A ARUN PARASHAR	32256	AE(L)
Fg Offr	LOKESH S	32269	AE(L)

Fg Offr	ARUN YADAV	32302	AE(L)
Fg Offr	SIDHARTH TRIPATHI	32260	AE(L)
Fg Offr	NINAD ANJALI WAMAN	32254	AE(L)
Fg Offr	AVNISH KUMAR SINGH	32262	AE(L)
Fg Offr	RANJITHA	32295	AE(L)
Fg Offr	TARUN CHANDEL	32245	AE(M)
Fg Offr	MANISH YADAV	32287	AE(L)
Fg Offr	V PRATAP SINGH	32284	AE(L)
Fg Offr	RISHI RAJ	32248	AE(M)
Fg Offr	SIBY C MATHEW	32285	AE(L)
Fg Offr	SS CHAUHAN	32258	AE(L)
Fg Offr	SUDHANSHU TYAGI	32294	AE(L)
Fg Offr	AMIT GUPTA	32286	AE(L)
Fg Offr	SK SHARMA	32244	AE(M)
Fg Offr	VIVEK KUMAR	32274	AE(L)
Fg Offr	SUMIT GAHLAWAT	32268	AE(L)
Fg Offr	MANISH ARORA	32280	AE(L)
Fg Offr	DHARMAGYA SINGH	32743	AE(L)
Fg Offr	S VIGNESH	32279	AE(L)
Fg Offr	ABHIMANYU SINGH	32293	AE(L)
Fg Offr	DABBIRU RAVI	32291	AE(L)
Fg Offr	HIMANSHU BHANDARI	32300	AE(L)
Fg Offr	RAHUL DAHIYA	32289	AE(L)
Fg Offr	SAJAL SHYAM SINGH	32251	AE(M)
Fg Offr	SARVJIT SINGH	32267	AE(L)
Fg Offr	ARVIND KUMAR KADIAN	32363	AE(L)
Fg Offr	SHIKHAR AGRAWAL	32263	AE(L)
Fg Offr	PRATHMESH JAIN	32275	AE(L)
Fg Offr	SHIVA	32259	AE(L)
Fg Offr	INDER SETIA	32292	AE(L)
Fg Offr	SANTOSH MANI	32298	AE(L)
Fg Offr	ANAND KUMAR JHA	32744	AE(L)
Fg Offr	ROHIT GUPTA	32281	AE(L)
Fg Offr	EBIN FRANCIS	32299	AE(L)
Fg Offr	SUBHAJIT MAJUMDAR	32255	AE(L)
Fg Offr	GURAASIS SINGH	32273	AE(L)
Fg Offr	ANKIT SATIJA	32257	AE(L)
Fg Offr	LOKESH PUROHIT	32271	AE(L)

Fg Offr	ASIF NAZIR BEG	32261	AE(L)
Fg Offr	VINAY ATTRI	32288	AE(L)
Fg Offr	SREERAJ R	32282	AE(L)
Fg Offr	KALBALI BAIG SERKAIL	32246	AE(M)
Fg Offr	M SRI RAGHU VAMSI	32301	AE(L)
Fg Offr	ANKUSH RAJPUT	32276	AE(L)
Fg Offr	ABHISHEK	32283	AE(L)
Fg Offr	ROHIT	32296	AE(L)
Fg Offr	KRIPAL CHOUDHARY	32297	AE(L)

Antedate wef 07 Jan 11

The President is pleased to confirm the undermentioned officers who were granted Permanent Commission, wef the date stated against their names:-

INDIAN AIR FORCE
ADMINISTRATIVE BRANCH

Rank	Name	Service No.
Fg Offr	KAMAL KUMAR MISHRA	32138
Fg Offr	SANDEEP SHARMA	32139
Fg Offr	VISHAL VYAS	32140
Fg Offr	PIYUSH PARAS NATH SHUKLA	32141
Fg Offr	GAGANDEEP SINGH RAJU	32143
Fg Offr	GOVIL GAUTAM	32144
Fg Offr	VIPUL MAURYA	32145
Fg Offr	VIVEK GURUNG	32146
Fg Offr	GAURAV SHARMA	32147

Confirmation wef 29 Dec 11

LOGISTICS BRANCH

Fg Offr	MUKESH YADAV	32148
Fg Offr	SHIVAM TRIVEDI	32149
Fg Offr	SATYAM BHARTI	32150
Fg Offr	AMIT MISHRA	32151

Confirmation wef 29 Dec 11

ACCOUNTS BRANCH

Fg Offr	SITARAM PRASAD NAUTIYAL	32153
Fg Offr	VARUN SHARMA	32154
Fg Offr	JOSHI MAUNIL PRAKASH KUMAR	32155
Fg Offr	BASKARAN SUJIT	32156

Confirmation wef 29 Dec 11

METEOROLOGICAL BRANCH

Fg Offr	VASKAR JYOTI SINHA	31699
Fg Offr	HRUSHIKESH PEDINA	31701

Confirmation wef 29 Dec 11

INDIAN AIR FORCE
ADMINISTRATIVE BRANCH

Fg Offr Mahesh Kumar Hiralkar 32142 Confirmation wef 29 Dec 11

ACCOUNTS BRANCH

Fg Offr Atul Kumar 32152 Confirmation wef 29 Dec 11

EDUCATION BRANCH

Fg Offr Manpreet Singh 32157 Confirmation wef 29 Dec 11

INDIAN AIR FORCE
ADMINISTRATIVE BRANCH

Fg Offr V Kundal 29954 wef 21 Jun 2008

The President is pleased to confirm the under mentioned officer who was granted Short Service Commission (on probation), wef the date stated against the names:-

INDIAN AIR FORCE
AERONAUTICAL ENGINEERING(ELECTRONIC) BRANCH

Fg Offr	ROHIT KUMAR	32029	AE(L)
---------	-------------	-------	-------

Confirmation wef 02 Jul 12

The President is pleased to confirm that the under mentioned officer is granted Short Service Commission, wef the date stated against her name:-

FLYING (PILOT) BRANCH

Fg Offr	PALLAVI MOHAPATRA	31885	F(P)
---------	-------------------	-------	------

Confirmation wef 19 Jun 11

FLYING (NAVIGATOR) BRANCH

Fg Offr	SWARNIM AWASTHI	32217	F(N)
Fg Offr	SAPNA MALIK	32218	F(N)

Confirmation wef 29 Dec 11

FLYING (PILOT) BRANCH

Rank	Name	Service No	Branch
Fg Offr	NAZIA M NADAF	32214	F(P)
Fg Offr	GINNI CHAUDHARY	32216	F(P)
Fg Offr	NISHA NAIN	32215	F(P)

Confirmation wef 29 Dec 11

FLYING (PILOT) BRANCH

Fg Offr	DEVANK SHARAMA	31816	F(P)
Fg Offr	KANDARP SURANI	31817	F(P)
Fg Offr	RANJITH R NAIR	31818	F(P)
Fg Offr	RAJENDER SINGH	31819	F(P)
Fg Offr	KARLAPLUDI RAGHAV	31820	F(P)
Fg Offr	ANKUR PANWAR	31821	F(P)
Fg Offr	ABHIMANYU SINGH	31822	F(P)

Fg Offr	MAYANK ABHISHEK	31823	F(P)
Fg Offr	SRINATH S	31827	F(P)
Fg Offr	SHALIN SHARMA	31828	F(P)
Fg Offr	VINEET JOSHI	31829	F(P)
Fg Offr	AZAD SHUKLA	31830	F(P)
Fg Offr	PAIKSHIT PHAGRE	31831	F(P)
Fg Offr	JAISS MON RAJU	31832	F(P)
Fg Offr	GURIBAL SINGH KUTWAL	31833	F(P)
Fg Offr	RANVIR SINGH	31834	F(P)
Fg Offr	AVNEET PATYAL	31835	F(P)
Fg Offr	SATYAPRAKASH MISHRA	31837	F(P)
Fg Offr	DEEPAK SETH	31840	F(P)

Confirmation w.e.f. 18 Jun 11

FLYING NAVIGATOR BRANCH

Fg Offr Vineet Kumar (32162), Kshitij Bharat Shrivastav (32173), Samunder Singh Sodha (32178), Shelke Harshad Sakahari (32181), Nikhil Tyagi (32184), Arjun Malhotra (32187), Venu Gopal Krishna Dasari (32191), Kapil Shukla (32193), Hariharan Vinod (32195), Pratyush Gopalan (32197), Sumit Aswal (32198)

w.e.f. 29 Dec 11

FLYING (PILOT) BRANCH

Fg Offr	AJAY VIR SINGH	31825	F(P)
Fg Offr	MANCHEKAR T	31826	F(P)

Confirmation Wef 18 Jun 11

FLYING (NAVIGATOR) BRANCH

Fg Offr	ANISHANISH MENON	31824	F(N)
Fg Offr	CHANDAN KUMAR CHOUDHARY	31836	F(N)
Fg Offr	SOMIAIAH G CHOVEDA	31838	F(N)
Fg Offr	GAGANDEEP SINGH MARWAHA	31839	F(N)
Fg Offr	SAHIL JAIN	31841	F(N)

Confirmation Wef 18 Jun 11

The President is pleased to confirm the under mentioned officers who were granted Short Service Commission (on probation), wef the date stated against their names:-

INDIAN AIR FORCE

ADMINISTRATIVE BRANCH

Fg Offr	BHIM BAHADUR LAMA	31222	ADM
Fg Offr	BINAY DEEP RAWAT	31223	ADM
Fg Offr	SHASHANT SINGH BHADORYA	31228	ADM
Fg Offr	PRAVESH KUMAR GOSWAMI	31229	ADM

Confirmation w.e.f. 19 Jun 2010

TARUN KHARE
Wg Cdr
JDPO-3(D)

No. 167, dated 17th June 2015—The President is pleased to confirm the under mentioned officers of 81 AEC who were granted Permanent Commission (on probation) wef 08 Jul 13. They are granted ante date wef 08 Jul 11.

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS) BRANCH

Fg Offr Chinthu Krishnan Vijayaraghavan (32609), Abhinav Sharma (32610), Suman Majumder (32611), Rohit Prabhunath Prasad (32612), Ravi Kumar (32613), Prudhvi Raj Seepana (32614), Pranav Sharma (32615), Smruti Santak Mohanty (32725), Rajesh Kumar Mohapatra (33123) wef 08 Jul 13. Antedate wef 08 Jul 11 (for pay, seniority and promotion)

The President is pleased to confirm the under mentioned officers who were granted Short Service Commission, wef the date stated against their names:-

INDIAN AIR FORCE
FLYING (PILOT) BRANCH

Fg Offr Deepak Khiria (32494), Gurpreet Singh Rissam (32495), Nipun Saini (32496), Vivek Gairola (32497), Shashank (32500), Nikhil Kishor (32501), Mukesh K (32502), Bharat Kaushik (32503), Ajin Zacharia (32504), Deepanshu Dixit (32505), Narendra Singh (32506), Arun B (32507), Vikas (32508), M Praveen Kumar (32509), Aditya Verma (32511), Amandeep Singh Dihot (32512), Vaibhav Sharma (32514), Jijo John (32516), Tarun Kumar Gupta (32517), Ravinder Singh Bansal (32520), Vishnu Gopinath (32521), Aditya Khatri (32522), Gaurav Sharma (32523), Dalveer Singh Bhangoo (32524), Devender Yadav (32526), Amit Malik (32527), wef 30 Jun 12.

D SHARMA
Wg Cdr
JDPO-3(D)

ARMY BRANCH

No. 168, dated 18th June 2015—The President is pleased to make the following promotion :-

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)
CAPT TO MAJ

MAJ DEEPAK RAO S (NTS-17554P NOW NTR-16898F) – 20 MAR 2013

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 03 May 2014 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

MAJ ANUJ KUMAR (NTS-17560H NOW NTR-16899K) – 15 FEB 2014

(MoD Notification published in the Gazette of India so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

NTR-16765-L	Capt	Pari K	20 Mar 2013
-------------	------	--------	-------------

LT TO CAPT

CAPT BIBHUTI KUMAR SAHOO (NTS-17595Y NOW NTR-16902Y) – 23 APR 2013

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 03 May 2014 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

CAPT VIJAY SINGH (NTS-17592L NOW NTR-16901W) – 23 APR 2013

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 03 May 2014 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

CAPT SATYANARAIN (NTS-17584M NOW NTR-16900N) – 07 APR 2012

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 19 Jan 2013 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

CAPT ANUJ KUMAR (NTS-17560H NOW NTR-16899K) – 15 FEB 2010

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 28 Aug 2010 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

CAPT DEEPAK RAO S (NTS-17554P NOW NTR-16898F) – 20 MAR 2009

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 22 Aug 2009 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

DV SINGH
Brig
Dy DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 169, dated 19th June 2015—The President is pleased to permit the undermentioned officer to relinquish his Short Service Commission in the Army Medical Corps wef 05 Jan 2015 and to grant him Permanent Commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 10/2001 as amended.

REGULAR ARMY PERMANENT COMMISSION ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

TO BE LT

LT DEEPAK RAO S (NTS-17554P NOW NTR-16898F) – 20 MAR 2007

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 09 Feb 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

LT ANUJ KUMAR (NTS-17560H NOW NTR-16899K) – 15 FEB 2008

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 18 OCT 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

LT SATYANARAIN (NTS-17584M NOW NTR-16900N) – 07 APR 2010

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 30 Apr 2011 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

LT VIJAY SINGH (NTS-17592L NOW NTR-16901W) – 23 APR 2011

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 21 Apr 2012 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

LT BIBHUTI KUMAR SAHOO (NTS-17595Y NOW NTR-16902Y) – 23 APR 2011

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 21 Apr 2012 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

DV SINGH
Brig
Dy DGAFMS (HR)

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in

DOPGIPF—[PART I—SEC.4]—91 Copies.